

GPIL/2025-2026

July 31, 2025

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai – 400001

**Scrip Code: 542857**

National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot no. C/1, G Block  
Bandra – Kurla Complex , Bandra (E),  
Mumbai – 400051

**Symbol: GREENPANEL**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Submission of copies of newspaper publication of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025**

Kindly find enclosed copies of the newspaper publications for the unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 as published on July 31, 2025, in the “Financial Express” (English, all India edition) and “Jan Satta” (Hindi, all India edition).

Kindly take the above on records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For **Greenpanel Industries Limited**

Company Secretary & VP – Legal

ACS : 18675

**Greenpanel Industries Limited**

**Registered & Corporate Office**

DLF Downtown, Block 3, 1st Floor, DLF Phase 3, Sector 25A, Gurugram - 122002, Haryana, India  
Tel No.: +91-124 4784 600 | Email: [info@greenpanel.com](mailto:info@greenpanel.com) | CIN : L20100HR2017PLC127303

[www.greenpanel.com](http://www.greenpanel.com) | Connect with us on    



**FIDEL SOFTECH LIMITED**  
(CIN - L72200PN2004PLC020061)

Unit No. 202, 2<sup>nd</sup> Floor, West Wing, Marisoft 3, Kalyani Nagar, Vadgaon Sheri, Pune - 411014. MH. India  
Website - [www.fidelsofttech.com](http://www.fidelsofttech.com) Email : [info@fidelsofttech.com](mailto:info@fidelsofttech.com)

**Statement of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June 2025**

The unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on July 30, 2025.

The full format Consolidated and Standalone Financial Results are available on the website of Stock Exchange at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the Company's website <https://www.fidelsofttech.com/financial-results/> and can be assessed by scanning the following QR codes :

	Scan the QR code to view Consolidated Financial Result on Website of the Company	Scan the QR code to view Standalone Financial Result on Website of the Company
<p>For Fidel Softech Limited</p> <p>Sd/-</p> <p>Prachi Kulkarni</p> <p>Managing Director</p> <p>DIN: 03618459</p>		

Date: 30<sup>th</sup> July 2025  
Place: Pune

 **GREENPANEL<sup>®</sup>**  
— MDF KA DOOSRA NAAM —  
**Greenpanel Industries Limited**

**Registered & Corporate Office:** DLF Downtown, Block 3, 1st Floor, DLF Phase 3, Sector 25A,  
Gurugram - 122002, Haryana, India, Tel No.: +91-124 4784 600  
CIN : L20100HR2017PLC127303

E-mail: investor.relations@greenpanel.com, Website: www.greenpanel.com

**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED  
JUNE 30, 2025**

Based on the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors of Greenpanel Industries Limited ('the Company'), at its meeting held on July 30, 2025 approved the unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025. These results have been reviewed by M/s. S. S. Kothari Mehta & Company LLP, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company, in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The aforementioned financial results, along with the audit report of the Statutory Auditors, are available at <https://www.greenpanel.com/financial-results/> and can also be accessed by scanning the quick response code given below:



Scan the QR Code to view the Results  
on the website of the Company



Scan the QR Code to view the results  
on the website of the BSE



Scan the QR Code to view the results  
on the website of the NSE

By order of the Board of Directors  
For Greenpanel Industries Limited

Shiv Prakash Mittal  
Wholetime Director cum Executive Chairman  
DIN: 00237242  
Place: Gurugram,  
Date: July 30, 2025

In case there are any questions on  
the above disclosures, please reach out to us at:  
investor.relations@greenpanel.com / Tel: 0124 4784600

**MDF | HDWR | Pre-Laminated MDF | Wooden Flooring | Plywood**

# AXLES INDIA LIMITED

CIN : U27209TN1981PLC008630  
Regd. Office: 21, Patullos Road, Chennai 600 002. Website: [www.axlesindia.com](http://www.axlesindia.com)

## NOTICE

Notice is hereby given that the 43<sup>rd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of the Company will be held on Monday, August 25, 2025 at 10.30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM").

The AGM of the Company will be held through VC / OAVM as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide their circulars dated, April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 read with September 19, 2024. Hence, Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC / OAVM facility only.

Notice of the 43<sup>rd</sup> AGM together with Annual Report for the financial year 2024-25 is being sent only in electronic means on July 31, 2025 in accordance with the relaxation granted by the MCA vide Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 to all the shareholders who have registered their email id with the Company / Depository Participants. Members may note that the Notice and Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website at [www.axlesindia.com](http://www.axlesindia.com). Members can attend and participate at the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice. Members attending through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has offered electronic voting facility (remote e-voting) through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to enable the Members to cast their votes electronically. Additionally, the facility for voting through electronic means shall also be made available at the time of AGM and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM are provided in the Notice.

Members whose names appears on the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut Off Date for voting i.e. August 18, 2025, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after despatch of the Notice but before the cut-off date for voting i.e. August 18, 2025 may obtain the login id and password by sending a request to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contacting our Registrars & Share Transfer Agents viz. Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai – 600002. Phone: 044-40020780/706/741; Email: [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com).

The remote e-voting period would commence on August 21, 2025 (Thursday) at 9:00 A.M. (IST) and conclude on August 24, 2025 (Sunday) at 5:00 P.M. (IST). Members will not be able to cast their vote electronically beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled for voting by CDSL thereafter. M/s. S. Dhanapal and Associates LLP, Practicing Company Secretaries, Chennai has been appointed as Scrutinizer for the remote e-voting and e-voting at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company Depository (ies) can obtain notice, Annual Report 2024-25 and login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by e-mail to investor@cameoindia.com:

- a signed request letter mentioning your name, folio number and Complete address;
- b. self-attested copy of PAN; and
- c. self-attested copy of the address proof (such as Aadhaar Card, Driving Licence, Election Identity card, Passport, etc.)

Members holding shares in demat form are requested to update their e-mail address / Electronic Bank Mandate with their depository participants.

The dividend, if declared by the Members, will be paid on or before September 24, 2025. In case the Company is unable to pay the dividend to any Member in their bank accounts through electronic or any other means, due to non-registration of bank account details by the Members, the Company shall dispatch the dividend warrant / cheque to such Members.

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ("the IT Act").

However, no tax shall be deducted on the dividend payable to a resident individual if the total dividend to be received by them during the Financial Year 2025-26 does not exceed Rs.10,000/- and also in cases where members provide Form 15G / Form 15H (applicable to individuals aged 60 years or more) subject to conditions specified in the IT Act. In general, to enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and / or update their residential status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants or in case shares are held in physical form, with the Company an email to the Company RTA's e-mail address at [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com). Form 15G / 15H can be downloaded from the weblink <https://investors.cameoindia.com> to avail the benefit and e-mail to [investors@cameoindia.com](mailto:investors@cameoindia.com) by August 18, 2025. There is also provision to upload the 15G / 15H in the weblink viz., <https://investors.cameoindia.com> provided by the Company's Registrar and Share transfer agent M/s. Cameo Corporate Services Limited.

If you need any clarification in this regard, you may contact Mr. V. Nagaraj, Manager, Cameo Corporate Services Limited (Ph. No. 044-40020735). The members also refer to the Communication on TDS on Dividend Distribution made available on the website of the Company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, August 19, 2025 to Monday, August 25, 2025 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call toll free No. 1800 21 09911.

By order of the Board  
**S Ram**  
Chairman  
DIN 00018300

Chennai  
31.07.2025

*Radico*  
SPIRIT OF EXCELLENCE

presents

**EXPRESS**  
**AQQA**

co-presented by  
**adani**


# KAL PENN

WHERE  
NEWSMAKERS  
DROP IN FOR  
A CANDID  
CHAT.

*in conversation with*

**Anant Goenka**

Executive Director  
The Indian Express Group

 **The Indian EXPRESS**  
— JOURNALISM OF COURAGE —

**SCREEN**

Associate Partner:

Experience Partner

## T.V. TODAY NETWORK LIMITED

Regd. Office: F-26, First Floor, Connaught Circus,  
New Delhi-110 001, CIN: L92200DL1999PLC103001  
Website: [www.aajtak.in](http://www.aajtak.in), Email: [investors@aahtak.com](mailto:investors@aahtak.com),  
Telephone: 0120-4908600, Fax: 0120-4325028

### NOTICE OF THE 26<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 26<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of T.V. Today Network Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 18, 2025 at 03:30 p.m. through video conference (VC)/OAVM, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 09/2024 (dated 19<sup>th</sup> September 2024), issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3<sup>rd</sup> October 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

Electronic copies of the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2025 of the Company shall be sent to all the members, as on July 18, 2025, whose email ids are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 26<sup>th</sup> AGM and Integrated Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular and SEBI Circular. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company <https://aajtak.in/investor/> and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, where the Company's shares are listed and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com> and also at the website of our RTA at <https://www.mcsregistrars.com/>.

The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the detailed procedure for the same shall be provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on September 15, 2025 (09:00 A.M.) and ends on September 17, 2025 (05:00 P.M.). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 11, 2025, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through VC / OAVM shall be counted for reckoning the quorum under section 103 of the Act.

Members, whose e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register / update their e-mail addresses. Members holding shares in physical form shall register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Form(s) with the RTA of the company, MCS Share Transfer Agent Limited, at [helpdesk@mcsregistrars.com](mailto:helpdesk@mcsregistrars.com). Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants.

The notice of the AGM shall contain the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through VC.

Further, notice is also given that record date will be September 11, 2025, for the purpose of determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the financial year 2024-25. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. 1<sup>st</sup> April 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"). For the prescribed rates for various categories, conditions for Nil/preferential TDS and details / documents required thereof, Members are requested to refer to the IT Act and Notice of the 26<sup>th</sup> AGM in this regard. In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the RTA by sending email to [helpdesk@mcsregistrars.com](mailto:helpdesk@mcsregistrars.com).

**In view of SEBI mandate, payment of dividend will only be in electronic mode w.e.f. April 01, 2024. Members are requested to immediately update their KYC including bank account details, if not already done, with the RTA (in case of physical shares) / Depository Participant (in case of Demat shares) for timely receipt of dividend.**

For T.V. Today Network Limited  
Sd/-

Ashish Sabharwal  
Group Head-Secretarial & Company Secretary  
Membership No.: F4991

Place: Noida  
Date: July 30, 2025



**राठी इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

सीआरएन: L7489D0.1991PL046570

पंजीकृत कार्यालय: ए-24/6, मोहन को. इंडिया प्रॉपर्टीज प्रा. लि. वॉशिंग्टन एस्टेट,  
मनूर रोड, नई दिल्ली-110044। फोन नंबर: 91-9311904448  
ईमेल आईडी: [compliance.in@rilstelmar.com](mailto:compliance.in@rilstelmar.com) | वेबसाइट: [www.rilstelmar.com](http://www.rilstelmar.com)

**शेयरधारकों के लिए सूचना**

**भौतिक शेयरों के अनुरोधों और अंतरण को पुनर्दर्ज करने के लिए विषयविविध खोला**

एलएचएस प्रा. लि. जारी है कि शेयरों के दिनांक दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुरोधों से, SEBI/HO/MIRSD/MRSP-DPO/PIR/2025/97 के अनुरोध, फिजिकल रखावतधारण को करने से पूर्व दर्ज करने के लिए एक विशेष विषयविविध खोला है, जो 1 अक्टूबर, 2019 की समयावधि से ताबत दर्ज करने वाले शेयरों को दस्तावेजों / प्रमाणों या अन्यथा इन मामलों के कारण अस्वीकृत / वापस / वापस नहीं हो सकते हैं (शे-लॉन्ग) जिसे बिना कमी के अग्रे के लिए प्रामाणी 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी।

अंतरण शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर्टीएफ), कर्नाटका नगरपालिका निवासित अजित लिमिटेड से ईमेल आईडी [contact@skynilnetra.com](mailto:contact@skynilnetra.com) पर, या कार्यालय 11-153A पर, नई दिल्ली, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली, नई दिल्ली, 110020 या कंपनी से ईमेल आईडी [compliance.in@gmail.com](mailto:compliance.in@gmail.com) पर संपर्क करें।

सूचना अनुरोधों के कारण, हस्तांतरण के लिए फिर से दर्ज की गई निम्नलिखित सूचना अनुरोधों सहित जो आज की तिथि पर हमारे कार्यालय / आर्टीएफ के पास नहीं है। कंपनी मोहन को. इंडिया प्रा. लि. की जगह, एक अलग दस्तावेज जारी करवाते हैं और वे प्राप्त करेंगे। जारी की जाने वाली सूचना माहौल और आर्टीएफ के साथ हस्तांतरण के लिए हस्तावेजों को फिर से दर्ज करने सामान्य हस्तांतरण दस्तावेजों और शेयर दस्तावेजों के साथ अपने बलादट मास्टर (सीएमएस) प्रमाण करना चाहिए।

**राठी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए**

हस्ता /  
निकास राठी  
(प्रमाण निरीक्षक)

तिथि: 29.07.2025  
स्थान: पुरानी



**Bank of India**  
Relationship beyond banking

## छतरपुर शाखा एवं मोहन गार्डन (उत्तम नगर) शाखा

### सार्वजनिक सूचना

लॉकरों के बकाया किराए के संबंध में सार्वजनिक सूचना। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया, छतरपुर शाखा एवं मोहन गार्डन शाखा में निम्नलिखित विवरणों के साथ अतिदेय लॉकर हैं :

**छतरपुर शाखा :-**

क्र. सं.	लॉकर सं.	नाम	पता	देय किराया (रु.) (जीएसटी हटाकर)	देय किराया तिथि
1.	000150 (F TYPE)	निशेरा अग्रवाल	के एच नंबर-499 और 504 और 503 और 500 गांव- गदाईपुर, पुलिस चौकी के पास, नई दिल्ली, 110030	49400	23/09/2018
2.	000307 (C) TYPE)	जगन नाथ	ए-30, यूजीएफ, फ्लैट नंबर-2 राजपुर खुर्द गांव, नई दिल्ली, 110068	15000	28/02/2021
	000192 (A TYPE)	निधि कोचर	मकान नंबर-बी-103 छतरपुर एन्क्लेव, नई दिल्ली, 110074	6000	26/02/2022

**मोहन गार्डन (उत्तम नगर) शाखा :**

1.	000053 (A TYPE)	इशांक अरोड़ा	9610, जैन मार्ग, पांच मटियाला, उत्तम नगर, नई दिल्ली, 110059	8400	04/03/2021
2.	000016 (A TYPE)	पूजा शर्मा	बी-2860सी, ब्लॉक बी-2, केशव पुरम, नई दिल्ली, 110035	10500	07/03/2019

उपरोक्त लॉकर धारकों को शाखा द्वारा पंजीकृत बैंक के माध्यम से सूचना भेजी गयी थी, जिसका कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए, लॉकर धारक या लॉकर धारक के कानूनी उत्तराधिकारियों से विनंती है कि वे इस सूचना के 15 दिनों के भीतर शाखा से संपर्क करें और लॉकर का पूरा बकाया किराया चुकाएं। बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत लॉकर को गैर दिख जाएगा।

**शाखा प्रबंधक, छतरपुर शाखा एवं मोहन गार्डन (उत्तम नगर) शाखा**



# SYMBIOSIS

Senapati Bapat Road, Pune 411004 | Tel.: 020-25925100, 020-25652444  
 Website: [www.symbiosis.ac.in](http://www.symbiosis.ac.in) | [www.symbiosiscollege.edu.in](http://www.symbiosiscollege.edu.in)

॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

### **Qualifications and Other Conditions**

- ▶ Educational qualifications, pay scale, selection norms and other requirements are as prescribed by the UGC notification dated 18<sup>th</sup> July 2018, Government of Maharashtra, Resolution No. Misc.-2018 / C.R.56 / 18 / UNI-1, dated 08<sup>th</sup> March 2019 and revised from time to time.
- ▶ As per UGC norms, appointment for the post of PRINCIPAL will be for a tenure of 5 years from the date of appointment or up to attainment of the age of superannuation, whichever is earlier.
- ▶ Associate Professor / Professor with approved total experience of 15 years of teaching / research / administration in Universities, Colleges and other institutions of Higher Education are eligible.
- ▶ Candidates should submit their A.P.I. score (minimum 110) record as per UGC norms.
- ▶ Medium of Instruction: English
- ▶ Reservation: A reserved caste category candidate must obtain the acknowledgement receipt for submission of application to the organisation. A copy of the acknowledgement receipt and application set should be scanned in pdf format and forwarded to the email ID reservation@unipune.ac.in of Reservation Cell, Savitribai Phule Pune University, Pune for information.
- ▶ Appointment done based on this advertisement will be subject to the final judgement of Hon. Bombay High Court, Aurangabad Bench on writ petition No. 12051 / 2015.
- ▶ Applicants who are already employed in service must forward their application through proper channel.
- ▶ No T.A. / D.A. will be paid to any of the candidates for attending the interview.

Applicants may email their CV along with testimonials, attested copies of required documents and certificates to [scac.recruitments@symbiosis.ac.in](mailto:scac.recruitments@symbiosis.ac.in) or send by post to Symbiosis Society, Senapati Bapat Road, Pune - 411004, within 30 days from the release date of this advertisement.

Note: Incomplete applications, applications not submitted through proper channel and applications received after the due date will not be taken into consideration.

Date: 31<sup>st</sup> July 2025

**Dr. Vidya Yeravdekar, Principal Director, Symbiosis**